

प्रेस नोट दिनांक 24.07.2021
थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली ।

थाना फतेहगंज पश्चिमी #bareillypolice द्वारा मादक पदार्थों की अवैध रूप से तस्करी करने वाले दो तस्कर 1.असलम उर्फ पिंडा व 2.रिजवान अंसारी को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 260 ग्राम व 10 ग्राम स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5,40,000 रूपये) बरामद।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी मीरगंज महोदय के पर्यवेक्षण में दिनांक 23.07.2021 को उ0नि0 श्री दुष्यन्त गोस्वामी मय हमराही का0 2960 अमरदीप व का0 2958 सचिन पंवार के थाना हाजा से कस्बा फतेहगंज पश्चिमी में वास्ते शान्ति व्यवस्था व रोक थाम जुर्म जरायम में रवाना होकर क्षेत्र में मामूर थे, पुलिस टीम जब गस्त करते हुए रहपुरा अण्डरपास के पास पहुची तो वहाँ पर दो व्यक्ति खडे मिले जो पुलिस टीम को देखकर तेज कदमों से रामपुर की ओर सर्विस रोड पर जाने लगे। पुलिस टीम द्वारा इन्हे आवाज देकर रूकने को कहा गया तो नही रूके शक होने पर पुलिस टीम द्वारा घेर घोटकर दिनांक 24.07.2021 को समय करीब 00.25 बजे पकड लिया गया। पकडे जाने पर नाम पता पूछते हुए नियमानुसार जामा तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम 1.असलम उर्फ पिंडा पुत्र अय्यूब अंसारी नि0 मौ0 अंसारी वार्ड नं0 8 कस्बा व थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली बताया। नियमानुसार जामा तलाशी लेने पर पकडे गये व्यक्ति के कब्जे से 260 (दो सौ साठ) ग्राम स्मैक बरामद हुई। पकडे दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम 2.रिजवान अंसारी पुत्र अब्दुल बिलाल नि0 मौ0 अंसारी वार्ड नं0 8 कस्बा व थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली नियमानुसार जामा तलाशी लेकर पकडे गये व्यक्ति के कब्जे से 10 (दस) ग्राम स्मैक बरामद हुई। पकडे गये दोनो व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किये गये और मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.असलम उर्फ पिंडा पुत्र अय्यूब अंसारी नि0 मौ0 अंसारी वार्ड नं0 8 कस्बा व थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली।

अभियुक्त असलम उर्फ पिंडा का आपराधिक इतिहास :-

मु0अ0स0 227/2021 धारा 8/21 NDPS ACT थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली ।

मु0अ0स0 231/2018 धारा 8/21 NDPS ACT थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली ।

2.रिजवान अंसारी पुत्र अब्दुल बिलाल नि0 मौ0 अंसारी वार्ड नं0 8 कस्बा व थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली।

अभियुक्त रिजवान अंसारी का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0स0 228/2021 धारा 8/21 NDPS ACT थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली ।

बरामदगी का विवरण:-

1-अभियुक्त असलम उर्फ पिंडा के कब्जे से 260 (दो सौ साठ) ग्राम स्मैक ।

2-अभियुक्त रिजवान अंसारी के कब्जे से 10 (दस) ग्राम स्मैक ।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बरामदा स्मैक की कीमत- पाँच लाख चालीस हजार रूपये

घटनास्थल:- रहपुरा अण्डर पास से रामपुर की ओर सर्विस रोड पर थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री दुष्यन्त गोस्वामी थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली।

2.का0 2960 अमर दीप थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली।

3.का0 2958 सचिन पंवार थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली।

(सुरेन्द्र सिंह पचौरी)
प्रभारी निरीक्षक
थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली।